



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 29—जून 4, 2010 (ज्येष्ठ 8, 1932)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29—JUNE 4, 2010 (JYAISTHA 8, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 मई 2010

सं. आरएस. 20/1/2010/35-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, संयुक्त निदेशक (आर) श्री हरि मोहन सक्सेना, 30 अप्रैल, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 4 मई 2010

सं. आरएस. 3/4/1/2010/37-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निजी सचिव श्रीमती कुलदीप कौर को 01 मई, 2010 से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 मई 2010

सं. 193/22/03/2010 (एचआर)/662--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्री हो राम, दिनांक 30.04.2010 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

नरेन्द्र ना. बुडेलिया, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. 10/पीबी-1/2010--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV और भारतीय विदेश सेवा (ख) के साइफर संवर्ग के ग्रेड-II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारी को इस मंत्रालय के दिनांक 12 जून, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/01/2009 के संदर्भ में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख)

के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करती हैं :—

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
श्री अरविन्द राय	01.01.1953	19.02.2010

2. उपर्युक्त अधिकारी ने अपने नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी
(पीबी-I एवं III)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. 13(ए-19011/7/2010-ई-I)--राष्ट्रपति द्वारा सुश्री शुभा सरमा, भा.प्रा.से. (ओआर: 99) को दिनांक 26 अप्रैल, 2010 के पूर्वानुमान से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. ए-22015/1/2009-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 मार्च, 2010 के का. ज्ञा. सं. 5/7/2008-सी एस-II के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री बी. के. शर्मा, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) को दिनांक 17 मार्च, 2010 से 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए) में वाणिज्य विभाग में सी एस एस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड (चयन सूची वर्ष 2005) में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

राम लखन, अवर सचिव

सं. ए-22015/1/2009-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 मार्च, 2010 के का. ज्ञा. सं. 5/7/2008-सी एस-II के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री आर. गोस्वामी, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) को दिनांक 17 मार्च, 2010 से 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए) में वाणिज्य विभाग में सी एस एस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड (चयन सूची वर्ष 2005) में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

राम लखन, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2010

सं. ए-23021/1/2001-प्रशा.-कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/1/2010-सी.एस.-I(एस) के

WS-9-82-GI(H)-2010-p-1-16

अनुसरण में अनुभाग अधिकारी के रूप में अभी तदर्थ आधार पर कार्यरत कोयला मंत्रालय की श्रीमती वर्षा नागपाल, सहायक को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की चयन सूची 2006 में शामिल किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 5 मई 2010

सं. ए-19011/4/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति ने श्री एम. आर. सुन्दरेश्वरन जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (एफ एंड वी पी) का मूल पद धारण किए हुए थे, को सी.सी.एस. (पेंशन) नियम के नियम-74 के अनुरूप 30.04.2010 (पूर्वानुमान) से सेवानिवृत्त कर दिया है।

एस. के. नंदा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 12 मई 2010

सं. ए-19018/01/2008-स्था.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या ए-12015/01/2006-स्था. दिनांक 24 जनवरी, 2008 के सिलसिले में राष्ट्रपति, श्री श्यामल कुमार चक्रवर्ती, संयुक्त निर्यंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन, वस्त्र और परिधान कंट्रोलर, रक्षा मंत्रालय को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 09 जनवरी, 2010 के पूर्वानुमान से रुपए 37,400--67,000/- + रुपए 8,900/- (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पीबी-4) में संविलियन आधार पर वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2010

सं. ए-32013/12/2005-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्या. ज्ञा. सं. 5/7/2008-सी एस-II दिनांक 17 मार्च, 2010 के तहत वर्ष 2005 हेतु सी एस एस एस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड की प्रवर सूची में नाम शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संवर्ग में नियमित आधार पर सी एस एस एस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त करती हैं :—

1. सुश्री अनीता गुलाटी
2. श्री आर. के. महाजन
3. श्री टी. आर. नाथर
4. श्री महेन्द्र राव

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. ए-19012/06/2007-ई.ए.--गृह मंत्रालय के एक नियमित अनुभाग अधिकारी श्री राजकुमार सक्सेना को प्रतिनियुक्ति पर उनकी अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) में प्रशासनिक अधिकारी पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए और ग्रेड पे रुपए 5,400/- के पद पर 29.03.2010 (पूर्वाह्न) से उनको दायित्व से मुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. 4-2/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री राकेश चन्द्र नेगी, आई.एस.एस. को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 31.03.2010 के अपराह्न से 15,600--39,100/- रुपये पे बैंड-3 सहित 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं।

2. यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 26.03.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12016/06/जे टी एस-ए डी-डी ओ सी/2009/आई एस एस के अनुसरण में जारी किया जाता है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. 4-5/2010-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ए.सी.सी. के दिनांक 31 मार्च, 2010 के आदेश सं. 4/1/2010-ई.ओ. (एस.एम.-I) के आधार पर राष्ट्रपति, श्री विवेक जोशी, आई.ए.एस. (हरियाणा : 89) को 19 अप्रैल, 2010 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश होने तक के लिए, जो भी पहले हो, 10,000/- रुपये की ग्रेड पे सहित 37,400--67,000/- रुपये (पी.बी.-4) के पे बैंड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करती हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2010

सं. 11/2010 (फा. सं. 4/12/2009-प्रशा.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/1/

2010-सीएसआई(एस) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में विद्युत मंत्रालय के निम्नलिखित नियमित सहायक, जो कि वर्तमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न, को चयन सूची वर्ष 2006 के वरिष्ठता कोटे के लिए नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में विद्युत मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :--

नाम	वर्तमान तैनाती
श्री राधे श्याम	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
मधुकर सुद, अवर सचिव	

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अप्रैल 2010

सं. 133/2010 (फा. सं. 7/1/2007-प्रशा.-II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.03.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/7/2008-सीएस.II के तहत, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड (प्रमुख निजी सचिव के रूप में पदनामित) की चयन सूचियों में उनके नामों को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 6,600/- रु. के ग्रेड-पे सहित 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 (पीबी-3) में नियमित आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग (कैंडर) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड (प्रमुख निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्ति किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	पीपीएस की चयन सूची वर्ष	कार्यालय
(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)			
1.	गणेश दास कुमार	2005	पीआईबी
2.	एस. के. शर्मा	2005	आकाशवाणी महानिदेशालय
3.	पी. के. टंडन	2005	मुख्य सचिवालय
4.	वीणा भगत	2005	आकाशवाणी महानिदेशालय
5.	सुदेश चोपड़ा	2006	दूरदर्शन महानिदेशालय

रामफल, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd May 2010

No. RS/20/1/2010/35-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Hari Mohan Saxena, Joint Director (R) retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 4th May 2010

No. RS/3/4/1/2010/37-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Kuldeep Kaur, Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Senior Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 1st May, 2010, until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 10th May 2010

No. 193/22/3/2010 (HR)/662—On attaining the age of superannuation, Shri Ho Ram, Under Secretary in the Election Commission of India, retired from the service with effect from the afternoon of 30th April, 2010.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd April 2010

No. 10/PB-I/2010—The President is pleased to appoint the undermentioned officer(s) belonging to Grade-IV of the General Cadre of IFS (B) and Grade-II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in Integrated Grades-II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against his name in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/01/2009 dated 12th June, 2009 :—

Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
Sh. Arabinda Ray	01.01.1953	19.02.2010

2. The above mentioned officer has assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date indicated against his name.

M. B. VERMA, Administrative Officer (PB-I & III)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 26th April 2010

No. 13 (A-19011/7/2010-E.I.)—The President is pleased to appoint Ms. Shubha Sarma, IAS (OR : 99) as Deputy Secretary, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Department of Commerce, Ministry of

Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 26th April, 2010 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

ANURAG SAXENA, Director

New Delhi, the 9th April 2010

No. A-22015/1/2009-E-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/7/2008-CS.II dated 17th March, 2010, the President is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, PPS (ad hoc) in Department of Commerce on regular basis as Principal Private Secretary Grade of CSSS (Select List Year 2005) in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the 17th March, 2010.

RAM LAKHAN, Under Secy.

No. A-22015/1/2009-E-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/7/2008-CS.II dated 17th March, 2010, the President is pleased to appoint Shri R. Goswami, PPS (ad hoc) in Department of Commerce on regular basis as Principal Private Secretary Grade of CSSS (Select List Year 2005) in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the 17th March, 2010.

RAM LAKHAN, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 12th May 2010

No. A-23021/1/2001-Admn.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/1/2010-CS-I(S) dated 25th February, 2010, Smt. Varsha Nagpal, a substantive Assistant, now working as Section Officer (ad hoc) in this Ministry is included in the Select List 2006 of the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 5th May 2010

No. A-19011/4/2010-Admn.—The President is pleased to retire Shri M. R. Sundareswaran holding substantive post of SIO(F&VP) in the Ministry of Food Processing Industries with effect from 30.04.2010 (A/N) in terms of Rule-74 of CCS (Pension) Rules.

S. K. NANDA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL
RESEARCH)

New Delhi-110016, the 12th May 2010

No. A-19018/01/2008-Estt.—In continuation of this Department's Notification No. A-12015/01/2006-Estt. dated 24th January 2008, the President is pleased to appoint Sh. Shyamal Kumar Chakraborty, Joint Controller,

Controllarate of Quality Assurance Textiles & Clothing's, Ministry of Defence as Scientist 'F' in Department of Scientific and Industrial Research in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,900/- (Grade Pay) on absorption basis with effect from the forenoon of 9th January, 2010.

S. K. KALRA, Under Secy.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & F. W.)**

New Delhi, the 11th May 2010

No. A-32013/12/2005-Estt.-I—Consequent on inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary Grade of CSSS for the year 2005 vide DoPT's O.M. No. 5/7/2008-CS-II dated 17th March, 2010, the President is pleased to appoint the following officers to the Principal Private Secretary Grade of CSSS on regular basis with immediate effect in the cadre of Deptt. of Health and F. W. :—

1. Ms. Anita Gulati
2. Shri R. K. Mahajan
3. Shri T. R. Nair
4. Shri Mahendra Rao

ANIL UNIYAL, Under Secy.

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)**

New Delhi, the 22nd April 2010

No. A-19012/06/2007-EA—Consequent upon completion of his term of deputation, Shri Raj Kumar Saxena, a regular Section Officer of the Ministry of Home Affairs has been relieved of his duties in the post of Administrative Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- & Grade Pay of Rs. 5,400/- in Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) with effect from 29.03.2010 (FN).

A. K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th April 2010

No. 4-2/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Chandra Negi, ISS in the Ministry of Women and Child Development as Assistant Director in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 31.03.2010 (Afternoon).

2. This issues in pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/06/JTS-Ad hoc/2009/ISS dated 26.03.2010.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 26th April 2010

No. 4-5/2010-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training, ACC's Order No. 4/1/2010-EO(SM.I) dated 31st March, 2010, the President is pleased to appoint Shri Vivek Joshi, IAS(HY:89) as Joint Secretary, in the Ministry of Women and Child Development, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 19th April, 2010 (Forenoon) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 12th May 2010

No. 11/2010 (F.No. 4/12/2009-Adm.-II)—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/1/2010-CS-I(S) dated 25th February, 2010 the following regular Assistant of the Ministry of Power Cadre of CSS, presently officiating as Section Officer, on ad hoc basis, is appointed to the grade of Section Officer of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List Year 2006 :—

Name	Present	Posting
Shri Radhey Shyam	Ministry of New & Renewable Energy	

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 28th April 2010

No. 133/2010 (F. No. 7/1/2007-Admn.-II)—Consequent upon inclusion of their names in the Select Lists of Private Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers' Service vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/7/2008-CS-II dated 17.03.2010, the following officers working as Principal Private Secretaries on ad hoc basis in this Ministry are appointed to the post of Private Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer's Service in the cadre of Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- as mentioned below :—

Sl. No.	Name	Select List Year of PPS	Office
	(S/Shri/Ms.)		
1.	Ganesh Dass Kumar	2005	PIB
2.	S. K. Sharma	2005	DG: AIR
3.	V. K. Tandon	2005	Main Sectt.
4.	Veena Bhagat	2005	DG: AIR
5.	Sudesh Chopra	2006	DG: DD

RAM PHAL, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010